



Ahluwalia Contracts (India) Limited

ENGINEERING ♦ DESIGNING ♦ CONSTRUCTION

Courier/Email/on-line

Date: 11/08/2017

To,

Asst. General Manager
(Corporate Services)
BSE Limited.

25th Floor, P.J.Towers
Dalal Street, Mumbai - 400001

Asst. Vice President - Listing,
National Stock Exchange of India Ltd.
5th Floor, Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East) Mumbai- 400051

Sub.: Copy of Newspaper Advertisement for Board Meeting Notice

BSE Scrip Code: 532811 NSE Symbol: AHLUCONT

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement Published on 10-08-2017 in Financial Express (English) and 11-08-2017 in Jansatta (Hindi) for Board of Directors Meeting of the Company to be held on Tuesday, 22nd day of August 2017 at Registered Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 at 4.00 p.m. to consider, approve, inter-alia and take on record, the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th, June 2017 (First Time Adoption of Ind-AS) and other agenda items, if any.

The information is also available on the website of the Company viz. www.acilnet.com and the website of the Stock Exchange, where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com).

You are requested to take the same on record and acknowledge the receipt.

Regards,

Yours faithfully,

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd

(Vipin Kumar Tiwari)
GM (Corporate) & Company Secretary
Copy to:

To,
The Manager (Listing), Code : 10011134
Calcutta Stock Exchange Ltd,
7, Lyons Range,
Kolkata - 700001,
Ph.: 033-22104470-4477



WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
 (A Govt. of West Bengal Enterprise)
 Regd. Office: Vidyut Bhawan, Block-DJ, Sector-II, Ballynagar, Kolkata - 700 091
 CIN: U40109WB2007SGG113473, recordmgt@gmail.com, www.wbsecl.in

NIT No.: WBSECL/CED/FPI/E-TENDER/2017-18/13 Date: 04.08.2017

The Chief Engineer (Distribution) invites e-tender from bonafide, resourceful and experienced contractors of Central/State/Semi-Government/ Govt. Undertaking/ Private Power Utilities for the work of 'Design, engineering, supply, delivery, erection, testing and commission of communicable non-communicable type Fault Passage Indicator (FPI)/ Fault Sensing Indicator (FSI) in the select 33kV & 11 kV feeders in the state of West Bengal including warranty obligation along with 05 (Five) years comprehensive maintenance'. Estimated Cost: Rs. 6,00,00,000/- (Rupees Six crore only) | year. Pre-Bid meeting: 18.08.2017 at 15:00 hrs. Start date of bid submission (online): 25.08.2017 from 11:00 hrs. Closing date of bid submission (online): 15.09.2017 up to 16:00 hrs. Other details such as eligibility criteria, earnest money, key dates, etc. are available on www.wbtenders.gov.in ICA/T 3255 (4)/20
www.wbsecl.in

AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED
 Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020
 (Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654)
 Website: - www.acilnet.com, E-mail: - cs.corporate@acilnet.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Stock Exchange(s), Notice is hereby given that the Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 22nd day of August, 2017 at Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 at 4.00 p.m. inter-alia to consider, approve and take on record, the Un-Audited Financial Results (Standalone) with limited review by the statutory auditors of the Company for the quarter ended 30th June 2017 (First Time Adoption of Ind-AS) and other agenda items, if any.

As per Code of Conduct of the Company for Prevention of Insider Trading in the securities of the Company, the Trading Window shall remain closed for all the Directors/ Officers/ Designated Employees / specified persons of the company from Wednesday, 16th August, 2017 to till 48 hours after the announcement of Q1 financial results.

The said information is also available on the website of the Company i.e. www.acilnet.com as well as website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com)

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd. Sd/-
 (Vipin Kumar Tiwari)
 GM (Corporate) & Company Secretary

Place: New Delhi Date: 09.08.2017

BHANDARI HOSIERY EXPORTS LIMITED
 Regd. Off: Bhandari House, Village Meharban, Rahon Road, Ludhiana-141007 (F)
 Phone: 88720-16410, Fax: 91-161-2690394.
 E-mail: bhandari@bhandariexport.com Website: www.bhandariexport.com
 CIN: L71115PB1993PLC013930

Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2017 (Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2017	Year ended 31.03.2017	Quarter ended 30.06.2016
1	Total Income from operations (net)	6184.28	21381.21	5255.12
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	75.21	420.37	125.12
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	75.21	420.37	125.12
4	Equity Share Capital	1465.27	1465.27	1465.27
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)		4439.99	
6	Earnings Per Share of face value of Rs. 1/- each	0.05	0.287	0.00
	Basic	0.05	0.287	0.00
	Diluted			

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on BSE Website i.e. www.bseindia.com and at Company's Website i.e. www.bhandariexport.com

For and on behalf of the Board of Directors
 (NITIN BHANDARI)
 Chairman & Mg. Director
 Dated : 08.08.2017
 Place : Ludhiana

Jabalpur Municipal Corporation
Notice Inviting Tender Date:- 05-08-17

NIT No. W.S./2017/153/PRO/182
 Online Tenders for the following work have been processed on the E-Procurement System Portal <https://www.mpeproc.gov.in>

Tender Details as below:
 Tender No :
 Name of Work : Supply of 1 No. Turn Table Ladder 55 Meters height for fire fighting & rescue operations.
 Probable amount of Contract (in Rs.) : 7,10,00,000/- (सात करोड़ दस लाख रुपये)
 EMD (In Rs.) : 7,10,000/- (सात लाख दस हजार रुपये)
 Last Date of Purchase : 06/09/2017
 Last Date of Submission online : 08/09/2017
 Date of Opening of EMD : 19/09/2017
 Date Opening Financial Bid : 22/09/2017

Original copy of Earnest Money Deposit (EMD) & other tender documents should be submitted through registered/speed post up to 4:30 pm on date 21/09/2017 at workshop/store department Municipal Corporation Jabalpur. Detailed NIT and other details can be viewed on the above mentioned portal.

Sd/-
 Deputy Commissioner
 Municipal Corporation, Jabalpur

M.K. EXIM (INDIA) LIMITED
 Regd. Office: G-1/150, Garment Zone, RIICO Industrial Area Sitapura, Jaipur-302012
 CIN.NO. L63040RJ1992PLC007111, TEL. NO. 0141-3937501, Email: mkexim@mkexim.com
 Annexure XI

"EXTRACT OF THE STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2017 (Rs. in Lakhs)"

Particulars	Quarter ended 30.06.17	Quarter ended 30.06.16	Year ended 31.03.17
Total income from operations	350.17	350.54	284.28
Net Profit/(Loss) for the period (Before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5.41	6.50	3.97
Net Profit/(Loss) for the period Before tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.41	6.50	3.97
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.41	6.50	3.97
Equity Share Capital	718.05	718.05	718.05
Reserves (Excluding Revaluation Reserve as show in the Balance Sheet of Previous Year)			115.15
Earing Per Share (Before extraordinary Items)	0.08	0.09	0.06
Basic:	0.08	0.09	0.06
Diluted:			
Earing Per Share (after extraordinary Items)	0.08	0.09	0.06
Basic:	0.08	0.09	0.06
Diluted:			

NOTE:- 1. The above Results for the quarter ended 30 June 2017 have been revised Audit Committee and approved by the Board of Directors of their meeting 08.08.2017. 2. The figures for the Previous year/period have been regrouped/reclassified wherever considered necessary. 3. The above is an extract of the detailed Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Results Standalone/Consolidated are available on the websites of Bombay Stock Exchanges at <http://www.bseindia.com> and also on the Company's website <http://www.mkexim.com>

By Order of the Board
 For M.K.EXIM (INDIA) Limited
 Sd/-
 (Manish Murlidhar Diale)
 Managing Director, DIN: 00000000

Place: Jaipur Date: 08.08.2017

YASH papers
 YASH PAPERS LIMITED
 REGD. OFFICE : FLAT NO. 202, 3A/172, AZAD NAGAR, KANPUR - 208002, UTTAR PRADESH
 Corp. Office : Yash Nagar, Faizabad - 224135, Uttar Pradesh
 CIN: L24231UP1981PLC005294 | T: +91 5278 208900/01 | F: +91 5278 258062
 E: info@yash-papers.com | Website: www.yash-papers.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 2nd September, 2017, inter-alia, to consider and approve Un-Audited Financial Result (As per Ind AS) of the Company for the 1st quarter ended 30th June, 2017.

Further in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, Trading Window shall remain closed from 23rd August, 2017 to 6th September, 2017 (both days inclusive).

The information regarding the above notice is also available on the website of the Company www.yash-papers.com and also on BSE Limited www.bseindia.com.

for Yash Papers Limited
 Sd/-
 Sachin Kumar Srivastava
 Company Secretary & Legal Head

Date: 10.08.2017
 Place: Faizabad

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE IMMEDIATE ATTENTION

Registered Office: IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110 019

सीएसटी फॉर्म 'C' खो गया है

बोल्को ऑटो इंडिया प्राइवेट लि. में घोषित करते हैं कि निम्नलिखित पार्टियों द्वारा दिए गए निम्नलिखित केंद्रीय विक्री कर फॉर्म 'C' खो गए हैं और हमें नहीं मिल रहे हैं। यदि किसी को मिले कृपया इस पते पर सूचित करें : बोल्को ऑटो इंडिया प्राइवेट लि., ग्राउंड फ्लोर, टावर A, यूनिटेक साइबर पार्क, ग्रीनवुड सिटी, गुडगाँव-122001.

वर्ष	जारीकर्ता	जारीकर्ता का नाम	C फॉर्म नंबर	C फॉर्म की राशि
12-13	मेसर्स ए.पी. कार्ज प्राइवेट लि.	बडीनगर	01CC-1441341	3,40,78,002.00
			कुल	3,40,78,002.00

AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED
 Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020
 (Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654)
 Website: - www.acilnet.com, E-mail:- cs.corporate@acilnet.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Stock Exchange(s), Notice is hereby given that the Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 22nd day of August, 2017 at Regd. Office : A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 at 4.00 p.m. Inter-alia to consider, approve and take on record, the Un-Audited Financial Results (Standalone) with limited review by the statutory auditors of the Company for the quarter ended 30th June 2017 (First Time Adoption of Ind-AS) and other agenda items, if any.

As per Code of Conduct of the Company for Prevention of Insider Trading in the securities of the Company, the Trading Window shall remain closed for all the Directors/ Officers/ Designated Employees / specified persons of the company from Wednesday, 16th August, 2017 to till 48 hours after the announcement of Q1 financial results.

The said information is also available on the website of the Company i.e. www.acilnet.com as well as website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com)

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd. Sd/-
 (Vipin Kumar Tiwari)

Place: New Delhi
 Date: 09.08.2017

GM (Corporate) & Company Secretary

Kohinoor Foods Ltd.

Regd. Office: 201, Vipps Centre, Masjid Moth, G.K.-II, New Delhi-110048 (India) Ph: 011-29220330
 Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Suraj Kund, Faridabad, Haryana - 121001
 Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233 E-mail: info@kohinoorfoods.in Visit us at: www.kohinoorfoods.in
 CIN - L52110DL1989PLC037097

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2017 (Rs in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2017 (Un-Audited)	Quarter Ended 30.05.2016 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations (net)	26923	27680
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	427	602
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	427	602
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	342	481
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	342	481
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 10/-each)	3524	3524
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)		
	1. Basic:	0.97	1.36
	2. Diluted:	0.97	1.36

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the BSE Limited (BSE) website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) website (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.kohinoorfoods.in).

For Kohinoor Foods Limited Sd/-
 (Satnam Arora)

Date: 10.08.2017
 Place: Faridabad

Jt. Managing Director

PREMIER POLYFILM LTD.

Regd. Office: 26th Floor, Sita House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamrudpur, New Delhi-110042



कारपोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

ई-52 और 5 महिष

कच्चा सूचना (बचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोदस्तावरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित करने के लिए निम्नलिखित कर्जदारों को दिनांक 10.08.2016 को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर मुग्तान करने को कहा गया था।

उपरोक्त उक्त राशि का मुग्तान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्वारा उधारकर्ता तथा अधोदस्तावरी ने इतने में भी वर्षित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त निम्न प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दिनांक 10.08.2017 को ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे सामग्री के साथ कोई भी लेन-देन कारपोरेशन बैंक, के प्रभार वाले बकाया राशि के अधीन होगा।

कर्जदार और गारंटों के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण
1. सुश्री राखी शर्मा पुत्री श्री सतीश चंद शर्मा 2. श्री सतीश चंद शर्मा	डीडीए द्वारा डीडीए इन्सुरेंस समीम - 2014 के अंतर्गत एलएट फ्लैट का वह सम्पत्ति माप एवं अर्थ जोकि डीडीए एल आई जी फ्लैट नं. 13, ब्लॉक-बी-19, पॉकैट-5, सेक्टर-35, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित है

दिनांक : 10.08.2017, स्थान : नई दिल्ली



Dhanuka Agritech

Regd. Office: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Josthi Road, K...
 Ph.: +91-11-6465 6800-802, E-mail: investors@dhanuka.com
 CIN: L24219DL1985PLC0

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AN FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER EN

S. No.	Particulars
1.	Total Income from operations
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income (OCI) after tax)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.2/-per Equity Share)
7.	Earning Per share (for continuing and discontinued operations (of Rs. 2/- each) - Basic EPS (in Rs.) - Diluted EPS (in Rs.)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Res 2017 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter end available on the website of BSE & NSE where the Company's shares are listed. www.nseindia.com respectively and on the Company's website, www.dhanuka.com
 2. Reconciliation of the net profit for the quarter ended 30th June, 2016, as reported and now under Ind AS is as follows:

Particulars
Net Profit as per previous Indian GAAP
Fair valuation of investments, classified as fair value through profit and loss
Actuarial Loss on employee defined benefit plan recognised in OCI
Deferred Tax Impact on above adjustments
Net Profit as per Ind AS

3. The company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) from 1st April 2017. The company has provided the relaxations provided by the SEBI, vide its circular no. CIR/CFD/FI/2017/100 dated 10.08.2017. Accordingly the company has provided the financial results for the previous quarter ended 30th June, 2016, along with the financial results for the quarter ended 30th June, 2016, have been restated to Ind AS.

Place : Gurugram (Haryana)
 Dated: 10th August, 2017